



गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों पर पानी की बौछार की गई। जागरण

डॉक्टरों को जाना ही होगा गांव

♦ स्वास्थ्य मंत्रालय का दो दूक जवाब, डाक्टरों ने किया प्रदर्शन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो दूक कहा है कि डाक्टरों की गांवों में एक साल की अनिवार्य तैनाती का फैसला वापस नहीं होगा। हालांकि वहां की स्थितियां बेहतर करने को ले कर डाक्टरों की मांग पर पूरी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। वहीं एम्स सहित राजधानी दिल्ली के कई मेडिकल कालेजों के छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह फैसला गांवों में डाक्टरों की कमी को दूर करने की सरकार की नीति के तहत किया गया है।

इसके मुताबिक एमबीबीएस डाक्टरों को स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम में तभी दाखिला मिलेगा, जब वे एक साल गांवों में काम कर चुके होंगे। गांवों में उन्हें सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में काम करना होगा। इस फैसले के खिलाफ एम्स सहित राजधानी दिल्ली के कई मेडिकल कालेजों के छात्रों ने मंत्रालय के अधिकारियों से भेट की। छात्रों का कहना है कि इस नियम को बदला जाए और इसे डाक्टरों की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि संबंधित राज्य सरकार गांवों में काम करने वाले डाक्टरों को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगी। इसी तरह समय-समय पर पीएचसी की जांच एक स्वतंत्र पैनल से करवाई जाए।